



**INTELLECTUAL
PROPERTY INDIA**

PATENTS | DESIGNS | TRADE MARKS
GEOGRAPHICAL INDICATIONS



सत्यमेव जयते

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

पेटेंट कार्यालय
THE PATENT OFFICE

पेटेंट प्रमाणपत्र
PATENT CERTIFICATE
(Rule 74 Of The Patents Rules)

1 of 5

क्रमांक : 011131811
SL No :



पेटेंट सं. / Patent No. : 360050
आवेदन सं. / Application No. : 4028/DEL/2012
फाइल करने की तारीख / Date of Filing : 27/12/2012
पेटेंटी / Patentee : CHAUDHARY DEVI LAL UNIVERSITY
आविष्कारक (जहां लागू हो) / Inventor(s) : 1.SIWACH, PRIYANKA 2.GILL, ANITA, RANI

प्रमाणित किया जाता है कि पेटेंटी को उपरोक्त आवेदन में यथाप्रकटित A PROCESS FOR PREPARING A HAIRY ROOT CULTURE EXTRACT OF FICUS RELIGIOSA L. HAVING INDUCED ACETYLCHOLINESTERASE INHIBITORY ACTIVITY AND COMPOSITION THEREOF नामक आविष्कार के लिए, पेटेंट अधिनियम, १९७० के उपबंधों के अनुसार आज तारीख 27th day of December 2012 से बीस वर्ष की अवधि के लिए पेटेंट अनुदत्त किया गया है।

It is hereby certified that a patent has been granted to the patentee for an invention entitled A PROCESS FOR PREPARING A HAIRY ROOT CULTURE EXTRACT OF FICUS RELIGIOSA L. HAVING INDUCED ACETYLCHOLINESTERASE INHIBITORY ACTIVITY AND COMPOSITION THEREOF as disclosed in the above mentioned application for the term of 20 years from the 27th day of December 2012 in accordance with the provisions of the Patents Act, 1970.



अनुदान की तारीख : 02/03/2021
Date of Grant :

पेटेंट नियंत्रक
Controller of Patent

टिप्पणी - इस पेटेंट के नवीकरण के लिए फीस, यदि इसे बनाए रखा जाना है, 27th day of December 2014 को और उसके पश्चात प्रत्येक वर्ष में उसी दिन देय होगी।

Note. - The fees for renewal of this patent, if it is to be maintained will fall / has fallen due on 27th day of December 2014 and on the same day in every year thereafter.

(12) PATENT APPLICATION PUBLICATION

(21) Application No. 202111015881 A

(19) INDIA

(22) Date of filing of Application : 05/04/2021

(43) Publication Date : 04/06/2021

(54) Title of the invention : MODEL OF ENHANCED AAROGYA SETU APP

(51) International classification	:G06Q0050220000, G06Q0010060000, G06Q0050260000, G06F0008200000, G06Q0099000000	(71)Name of Applicant : 1)Dr. Harish Rohil Address of Applicant :E-14, University Campus, Ch. Devi Lal University, Sirsa- 125055, Haryana Haryana India 2)Himanshu Mishra 3)Dr. Manju 4)Dr. Yashpal Singh 5)Dr. Surjeet Dalal 6)Dr. Vivek Jaglan 7)Dr. Neeraj Dahiya 8)Dr. Sanjay Kumar 9)Dr. Ajay Sharma
(31) Priority Document No	:NA	(72)Name of Inventor : 1)Dr. Harish Rohil 2)Himanshu Mishra 3)Dr. Manju 4)Dr. Yashpal Singh 5)Dr. Surjeet Dalal 6)Dr. Vivek Jaglan 7)Dr. Neeraj Dahiya 8)Dr. Sanjay Kumar 9)Dr. Ajay Sharma
(32) Priority Date	:NA	
(33) Name of priority country	:NA	
(86) International Application No	:NA	
Filing Date	:NA	
(87) International Publication No	: NA	
(61) Patent of Addition to Application Number	:NA	
Filing Date	:NA	
(62) Divisional to Application Number	:NA	
Filing Date	:NA	

(57) Abstract :

Our proposed Model of Enhanced Aarogya Setu App focuses on the best utilization of the existing Aarogya Setu app. The Aarogya Setu app an open source software designed and developed by National Informatics Centre, under the Ministry of Electronics and Information Technology, Government of India for the containment of spread of Coronavirus (Covid-19). The existing Aarogya Setu app has limited features like contact tracing, geo tagging, self-assessment, registration for vaccination. The Aarogya Setu app is one of the most downloaded mobile application in India in the year 2020. A lot of resources and cost was incurred on development and advertisement of the app. Since the app is designed for single purpose with limited features and no future scopes, all the efforts and cost will go underutilized as soon as the pandemic situation is over. So, in our model, we focus on enhancing the app by adding more useful features which have relevance during pandemic and post pandemic situations, thus, making the existing Aarogya Setu app a permanent health app for Indian citizen. Our invention makes the best utilization of the public money incurred on development of the existing app.

No. of Pages : 23 No. of Claims : 10




2/6/21, 11:51 AM

Patent 2.jpg




Office of the Controller General of Patents, Designs & Trade Marks
 Department of Industrial Policy & Promotion,
 Ministry of Commerce & Industry,
 Government of India



Application Details

APPLICATION NUMBER	202011051257
APPLICATION TYPE	ORDINARY APPLICATION
DATE OF FILING	21/07/2020
APPLICANT NAME	DR. HARISH KUMAR
TITLE OF INVENTION	A METHOD FOR INSTANTANEOUS PURIFICATION OF IMPURE DRINKING WATER USING NANOTECHNOLOGY
FIELD OF INVENTION	CHEMICAL
E-MAIL (As Per Record)	ashish.iprindia@hotmail.com
ADDITIONAL-EMAIL (As Per Record)	ipnation@outlook.com
E-MAIL (UPDATED Online)	
PRIORITY DATE	
REQUEST FOR EXAMINATION DATE	13/05/2021
PUBLICATION DATE (U.S. 11A)	21/05/2021
REPLY TO FER DATE	27/10/2021



**INTELLECTUAL
PROPERTY INDIA**

PATENTS | DESIGNS | TRADE MARKS
GEOGRAPHICAL INDICATIONS




सत्यमेव जयते

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

पेटेंट कार्यालय
THE PATENT OFFICE

पेटेंट प्रमाणपत्र
PATENT CERTIFICATE
(Rule 74 Of The Patents Rules)

क्रमांक : 011140070
SL No :



पेटेंट सं. / Patent No. : 380774
आवेदन सं. / Application No. : 202011009196
फाइल करने की तारीख / Date of Filing : 04/03/2020
पेटेंटी / Patentee : Dr. Harish Kumar

प्रमाणित किया जाता है कि पेटेंटी को उपरोक्त आवेदन में यथाप्रकटित A METHOD OF REMOVAL OF POLLUTANTS FROM ATMOSPHERE USING GREEN TECHNOLOGY नामक आविष्कार के लिए, पेटेंट अधिनियम, 1970 के उपबंधों के अनुसार आज तारीख 4th day of March 2020 से बीस वर्ष की अवधि के लिए पेटेंट अनुदत्त किया गया है।

It is hereby certified that a patent has been granted to the patentee for an invention entitled **A METHOD OF REMOVAL OF POLLUTANTS FROM ATMOSPHERE USING GREEN TECHNOLOGY** as disclosed in the above mentioned application for the term of 20 years from the 4th day of March 2020 in accordance with the provisions of the Patents Act, 1970.



अनुदान की तारीख : 29/10/2021
Date of Grant :

पेटेंट नियंत्रक
Controller of Patent

टिप्पणी - इस पेटेंट के नवीकरण के लिए फीस, यदि इसे बनाए रखा जाना है, 4th day of March 2022 को और उसके पश्चात प्रत्येक वर्ष में उसी दिन देय होगी।

Note. - The fees for renewal of this patent, if it is to be maintained will fall / has fallen due on 4th day of March 2022 and on the same day in every year thereafter.

(12) PATENT APPLICATION PUBLICATION

(21) Application No.202011032123_A

(19) INDIA

(22) Date of filing of Application :27/07/2020

(43) Publication Date : 28/08/2020

(54) Title of the invention : SMART WATER TANK WITH IOT BASED FILTHINESS ALERT SYSTEM

(51) International classification

:G16Y
30/00

(31) Priority Document No

:NA

(32) Priority Date

:NA

(33) Name of priority country

:NA

(86) International Application No
Filing Date:NA
:NA

(87) International Publication No

:NA

(61) Patent of Addition to Application Number
Filing Date:NA
:NA(62) Divisional to Application Number
Filing Date:NA
:NA

(71)Name of Applicant :

1)Dr. Surjeet Dalal

Address of Applicant :SRM University, Delhi-NCR, Sonipat
Haryana India

2)Dr. Vivek Jaglan

3)Dr. Neeraj Dahiya

4)Dr. Sanjay Kumar

5)Dr. Ajay Sharma

6)Dr. Harish Rohil

7)Dr. Bhasker Pant

(72)Name of Inventor :

1)Dr. Surjeet Dalal

2)Dr. Vivek Jaglan

3)Dr. Neeraj Dahiya

4)Dr. Sanjay Kumar

5)Dr. Ajay Sharma

6)Dr. Harish Rohil

7)Dr. Bhasker Pant

(57) Abstract :

The following specification mostly describes the invention and the way in which it is to be made. This smart water tank with IoT based filthiness alert system consists of the digital camera that is connected to mobile phone. The camera helps to identify and you can correct in your identification and observations that dirt, decomposed materials, feces or other dirty materials are present in the water tank or not and it is required to clean or not. In normal situation we can easily see dirt in the water. Assume that the water tank is too high and that it is not easy to reach that height very often so that the impurity of the water tank is easily visible. And without proper cleanliness there will be a chances of infection due to the use of that water. The smart water tank with IoT based filthiness alert system. has a mechanism for displaying real-time video streaming on the connected Mobile screen to help the authorized person to check water tank on regular basis which is not easily visible can be cleaned in a timely manner.

No. of Pages : 14 No. of Claims : 6



Welcome SUNDARSHAN KUMAR BA

Controller General of Patents, Designs & Trade
Marksसत्यमेव जयते
G.A.R.6
[See Rule 22(1)]
RECEIPT

Docket No 50552

Date/Time 2021/05/21 16:01:27

SUNDARSHAN KUMAR BANSAL 52,
Sukhdev Vihar, Mathura Road Email:
unitedpatent@unitedipr.com

Sr. No.	Ref. No./Application No.	App. Number	Amount Paid	C.B.R. No.	Form Name	Fee Payment	Remarks
1	202111022746	TEMP/E-1/25028/2021-DEL.	8000	17765	FORM 1	Full	NOVELIMMUNOASSAYS FOR THE DETECTION OF EARLY PREGNANCY IN BUBALUS BUBALIS
2	202111022744	TEMP/E-1/25055/2021-DEL.	8000	17765	FORM 1	Full	MULTIPLIED LUMINEX MAGPIX ASSAY FOR CONCURRENT DETECTION OF BLUETONGUE VIRUS, BOVINE CORONAVIRUS AND ROTAVIRUS
3	E-17(xj)/35054/2021/DEL.	8649/DELNP/2011	4800	17765	RENEWAL OF PATENTS	Full	
4	202111022745	TEMP/E-1/25048/2021-DEL.	8000	17765	FORM 1	Full	MAGPIX ASSAYS FOR SIMULTANEOUS DETECTION AND DIFFERENTIATION OF DIFFERENT SEROTYPES AND TOPOTYPES OF BLUETONGUE VIRUS

TransactionID	Payment Mode	Challan Identification Number	Amount Paid	Head of A/C No
N-0000804783	Online Bank Transfer	2105210004942	28800.00	1475001020000001

Total Amount : ₹ 28800

Amount in Words: Rupees Twenty Eight Thousand Eight Hundred Only

Received from SUNDARSHAN KUMAR BANSAL the sum of ₹ 28800 on account of Payment of fee for above mentioned Application/Forms.

* This is a computer generated receipt, hence no signature required.

[Print](#)[Home](#)[About Us](#)[Contact Us](#)